

प्राथमिक मेनू - अक्टूबर 2016 - 2017 अप्रैल

	सोमवार	मंगलवार	बुधवार	बृहस्पतिवार	शुक्रवार
	<b>सप्ताह 1</b>				
31 अक्टूबर, 21 नवंबर, 12 दिसंबर 2016, 16 जनवरी, 6 फरवरी और 27 मार्च 2017	मोरक़ान चिकन चावल ब्रोकोली और सलाद ओटमील कुकी	बीफ रोस्ट के साथ यॉर्कशायर पुडिंग और ग्रेवी ड्राई रोस्ट आलू बंद गोभी, गाजर और सलाद यीओ वैली दही, चावल पुडिंग पांट, ताजे फल, फलों के पांट्स	बीफ मीटबॉल और ग्रेवी पास्ता ब्रोकोली और सलाद केले मालपुआ	पोर्क रोस्ट और ग्रेवी ड्राई रोस्ट आलू ब्रोकोली, फूलगोभी और गाजर का मिश्रण और सलाद जैली, चावल पुडिंग पांट, ताजे फल, फलों के पांट्स	बेकड फिश फिंगर और टमाटर केचप चिप्ड आलू बेकड बीन्स और सलाद चाँकलेट चैरी मफिन
	शाकाहारी सॉसेज और ग्रेवी डाइस आलू ब्रोकोली और सलाद ओटमील कुकी	कार्न बर्गर और यॉर्कशायर पुडिंग और ग्रेवी ड्राई रोस्ट आलू बंद गोभी, गाजर और सलाद यीओ वैली दही, चावल पुडिंग पांट, ताजे फल, फलों के पांट्स	पिज़्ज़ा स्वीट कार्न और सलाद केले मालपुआ	वीन और पनीर यॉर्की ड्राई रोस्ट आलू ब्रोकोली, फूलगोभी और गाजर का मिश्रण और सलाद जैली, चावल पुडिंग पांट, ताजे फल, फलों के पांट्स	नियपोलिटन पास्ता बगीचे के मटर और सलाद चाँकलेट चैरी मफिन
	<b>सप्ताह 2</b>				
7 और 28 नवंबर 2016, 2 और 23 जनवरी, 13 फरवरी, 13 मार्च, 3 अप्रैल 2017	बेकड पोर्क सॉसेज मैथ किए हुए आलू बेकड बीन्स और सलाद आइसक्रीम	चिकन रोस्ट और ग्रेवी ड्राई रोस्ट आलू ब्रोकोली, फूलगोभी और गाजर का मिश्रण और सलाद यीओ वैली दही, चावल पुडिंग पांट, ताजे फल, फलों के पांट्स	साल्मन और हैडौक स्लाइस आलू की टिड्डी बगीचे के मटर और स्वीटकार्न मेडले और सलाद फल क्रम्बल स्लाइस और कम चीनी वाला कस्टर्ड	बीफ रोस्ट के साथ यॉर्कशायर पुडिंग और ग्रेवी ड्राई रोस्ट आलू स्वीड और गाजर और सलाद जैली, चावल पुडिंग पांट, ताजे फल, फलों के पांट्स	बैटर्ड फिश और टमाटर केचप चिप्ड आलू बगीचे के मटर और सलाद आइस्ड फल ब्रेड
	मैकरोनी पनीर बगीचे के मटर और सलाद आइसक्रीम	सब्जी और वीन बेक और ग्रेवी ड्राई रोस्ट आलू ब्रोकोली, फूलगोभी और गाजर का मिश्रण और सलाद यीओ वैली दही, चावल पुडिंग पांट, ताजे फल, फलों के पांट्स	पिज़्ज़ा बगीचे के मटर और स्वीटकार्न मेडले और सलाद फल क्रम्बल स्लाइस और कम चीनी वाला कस्टर्ड	मीटे आलू और दाल करी चावल हरी बीन्स और सलाद जैली, चावल पुडिंग पांट, ताजे फल, फलों के पांट्स	शाकाहारी कार्न पेस्टी चिप्ड आलू बगीचे के मटर और सलाद आइस्ड फल ब्रेड
	<b>सप्ताह 3</b>				
14 नवंबर, 5 दिसंबर 2016, 9 और 30 जनवरी, 27 फरवरी, 20 मार्च 2017	दक्षिणी कोटेड चिकन गोज़ोस  हर्ब डाइस आलू बगीचे के मटर और स्वीटकार्न मेडले और सलाद चाँकलेट स्पंज और चाँकलेट कस्टर्ड	पोर्क रोस्ट और ग्रेवी ड्राई रोस्ट आलू बंद गोभी और गाजर और सलाद यीओ वैली दही, चावल पुडिंग पांट, ताजे फल, फलों के पांट्स	माइल्ड बीफ मद्रास करी नान ब्रेड चावल ब्रोकोली और सलाद ऑरेंज कुकी	चिकन रोस्ट और ग्रेवी ड्राई रोस्ट आलू ब्रोकोली, फूलगोभी और गाजर का मिश्रण और सलाद जैली, चावल पुडिंग पांट, ताजे फल, फलों के पांट्स	बेकड फिश फिंगर और टमाटर केचप चिप्ड आलू बगीचे के मटर और सलाद टूटी फ्रूटी स्पंज
	पनीर और सब्जी बेक हर्ब डाइस आलू बगीचे के मटर और स्वीटकार्न मेडले और सलाद चाँकलेट स्पंज और चाँकलेट कस्टर्ड	शाकाहारी टॉड इन द होल और ग्रेवी ड्राई रोस्ट आलू बंद गोभी और गाजर और सलाद यीओ वैली दही, चावल पुडिंग पांट, ताजे फल, फलों के पांट्स	पिज़्ज़ा ब्रोकोली और सलाद ऑरेंज कुकी	शाकाहारी सॉसेज पफ और ग्रेवी ड्राई रोस्ट आलू ब्रोकोली, फूलगोभी और गाजर का मिश्रण और सलाद जैली, चावल पुडिंग पांट, ताजे फल, फलों के पांट्स	टमाटर वीन ग्रेटिन स्वीटकार्न और सलाद टूटी फ्रूटी स्पंज

केले, सेब, संतरा, दही, चावल पांट, फल पांट, पनीर और बिस्कुट या फलों का रस रोज़ उपलब्ध होगा  
अतिरिक्त ब्रेड रोज़ उपलब्ध होगी